



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 925 राँची, गुरुवार

27 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

14 सितम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-102/2016-2151 (HRMS)-- श्री जीतराय मुर्मू, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी, के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं :

Sr No.	Employee Name G.P.F No	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JITRAY MURMU 110021163856	श्री जीतराय मुर्मू, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी के विरुद्ध उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-779वि० दिनांक- 18.07.2016 द्वारा गठित प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है ।

विवरण:

चूंकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जीतराय मूर्मू, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-सरायकेला खरसावाँ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी खूँटपानी के विरुद्ध उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-779/वि०, दिनांक 18 जुलाई, 2016, द्वारा डोभा निर्माण में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री मुर्मू के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मुर्मू को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने के तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उनकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री मुर्मू द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री मुर्मू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वानियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प० सिंहभूम, चाईबासा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार के आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: ROH/RVP/1007
